




# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 560] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 22, 1981/ पौष 1, 1903  
No. 560] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 22, 1981/PAUSA 1, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1981

का.आ. 906(अ)/18एए/आई.डी.ए./81.—केंद्रीय सरकार ने भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का.आ. 825(ई)/18कक/आई.डी.आर.ए./76, दिनांक 23 दिसम्बर, 1976 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के त्रितीय संसद काबेरी स्पीनिंग एण्ड वीरिंग मिल्स लिमिटेड, पूवुकुटई नामक

औद्योगिक उपक्रम का पूर्ण प्रबन्ध 22 दिसम्बर, 1981 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए जिसमें यह तारीख भी है, ग्रहण कर लिया गया था और उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए तमिल नाडू टेक्सटाइल कारपोरेशन को प्राधिकृत किया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध 22 जून, 1982 पर्यन्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् तक की छः मास तक की और अवधि के लिए तमिलनाडू टेक्सटाइल कारपोरेशन को अधीन रहे ;

अतः केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 60) की धारा 18-कक की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह न्यदेश देती है कि उक्त आदेश 22 जून, 1982 तक जिसमें यह तारीख भी शामिल है, छः मास की अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

[फा. सं. 3(9)/81-सी. यू. एस. जे]

चन्द्र किशोर मोदी, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF INDUSTRY**  
(Department of Industrial Development)

**ORDER**

New Delhi, the 22nd December, 1981

**S.O. 906(E)/18AA/IDRA/81.**—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 825(E)/18AA/IDRA/76, dated the 23rd December, 1976 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the whole of the Industrial undertaking known as Messrs Cauvery Spinning and Weaving Mills Limited, Pudukkotai, was taken over under clause (b) of sub-section (1) of Section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of five years upto and inclusive of 22nd December, 1981 and the Tamil Nadu Textile Corporation was authorised to take over the management of the said Industrial undertaking ;

And, whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Industrial undertaking should continue under the management of the Tamil Nadu Textile Corporation for a period of six months upto the 22nd June, 1982 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of six months upto and inclusive of the 22nd June, 1982.

[File No. 3(9)/81-CUS]

C. K. MODI, Jt. Secy.